



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002  
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002  
Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402  
Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

## DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : TED 22 (23018)

Date : 14 December 2023

**TECHNICAL COMMITTEE : Transport Tractors, Trailers And Industrial Trucks, TED 22**

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Transport Tractors, Trailers And Industrial Trucks Sectional Committee, TED 22. Please [click here](#) to view the document.

**Document Number : TED 22 (23018) WC**

**Title of the document : TRANSPORT TRACTORS AND TRAILERS — STATIC LOAD ON BALL COUPLINGS**

**Document Type : Revision of Indian Standard (IS 12606)**

*This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:*

1) 1.1 This standard lays down the limiting values of static load applied vertically by transport tractors and trailers on ball coupling fitted to the towing vehicles. 1.2 This standard applies to transport tractors and trailers for which the maximum authorized weight does not exceed 3.5 tonnes. 1.3 This standard does not apply to unbraked trailers and twin-axle trailers.

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

**Last date for sharing the comments is : 12 February 2024**

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ted@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,**  
**P.V. Srikanth**  
**Sc - D & Head (Transport Engineering Department)**  
**Email: ted@bis.gov.in**



## व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : TED 22 (23018)

दिनांक : 14-12-2023


**तकनीकी समिति : Transport Tractors, Trailers And Industrial Trucks Sectional Committee, TED 22**

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : TED 22 (23018) WC

शीर्षक : परिवहन ट्रेक्टरों और ट्रेलरों — बाल युग्मनोंपर स्थिर भार (IS 12606 )

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

**सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 12 February 2024**

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,  
विभाग प्रमुख का नाम : P.V. Srikanth  
Sc - D & Head (Transport Engineering Department)  
ई-मेल : ted@bis.gov.in